

Consumer durable firms expect festive sales to pick up

SHUBHRA TANDON
New Delhi, August 22

THE ONSET OF festive season this year may bring back some demand for consumer durable products, which has slowed down since end of May, leading to operating margin pressure for companies in the quarter ended June 2022. The sluggishness continued into July as well raising some concerns among the future demand scenario.

While growth projections were at 20-25% over financial year 2019-2020 volumes in the June quarter, the industry has actually witnessed a de-growth of about 10% as the sales slowed down after May 2022.

B Thiagarajan, managing director, Blue Star said that over the past few years the peak demand season is shifting, resulting in March and April becoming the peak buying season for customers. "Of late demand is peaking in March and April and that will be the trend as people tend to buy when the temperatures are shooting up. This year, there was also fear that the prices will go up and therefore dealers and consumers may have purchased ahead of the usual time," he said in a recent call.

Anuj Poddar, MD and CEO, Bajaj Electricals said that the demand slowed down from the third week of May, with June seeing weaker demand and that continued into July as well.

Operating income for con-



We expect to see a strong bounceback between August and September, signs of it are already visible in August."

ANUJ PODDAR,
MD & CEO, BAJAJ
ELECTRICALS

sumer durable companies remained a challenge during the quarter ended June 2022. "Profitability remained challenging—Ebitda margins dipped 180 basis points below our estimate, albeit flat y-o-y, owing to high-cost inventory, limited pricing action and higher ad-spends during the quarter," said analysts at Edelweiss.

Some manufacturers also said that while premium categories did well, stress was more felt on entry segments, given the high inflationary impact. Vishal Bhola, managing director Whirlpool of India said, "The industry showed good recovery in mid and premium while the entry segment was muted with inflation putting stress on consumer spending." Voltas, reported a sharp 35% miss on Ebitda due to an EPC provision-induced loss.

While the company reported 7% growth in cooling revenue, the first quarter margins were at a

14-year low, said Edelweiss. Air-cooler manufacturer Symphony posted a 6% top-line outperformance, but missed analyst expectations on the Ebitda and net profit owing to higher advertising and promotion spends, freight and warranties. Similarly, Whirlpool beat top line by a high single digit versus consensus driven by seasonal stocking. However, historically low product margins led to an even steeper miss on Ebitda.

Companies, meanwhile, are optimistic that the festive season demand should augur well and make up for the lost ground. "We expect to see a strong bounceback in August-September, signs of it are already visible in August. I see this getting accelerated with the early festive season and primary sales should see a pick up now giving confidence that Q2 will see a healthy bounce back and Q3 ending up being a decent quarter," Poddar said.

At ₹4.2 trillion, auto component firms post record turnover

FE BUREAU
Pune, August 22

THE INDIAN AUTO component industry clocked its highest-ever turnover of ₹4.2 trillion during FY22 and registered a 23.44% year-on-year growth on the back of strong export performance and growth in the replacement market. In dollar terms, the industry clocked a 23.09% growth to \$56.5 billion. Indian auto component exports grew by 43% to \$19 billion while imports were up 33% to \$8.3 billion to clock a trade surplus of \$700 million for the first time. Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) said.

Sale of electric vehicle components in FY22, excluding batteries, reached ₹3,520 crore and accounted for around 1% of auto component sales to OEMs. FY22 also saw the auto component aftermarket grow 15% to ₹74,203 crore and touched the \$10-billion mark, led by a surge in

demand for used vehicles. Sales to OEMs grew 22% on the back of a recovery in the market. The only area of concern was the slowing down in the two-wheeler segment.

"Exports grew by 43% to ₹1.41 trillion while imports grew by 33% to ₹1.36 trillion leading to a trade surplus," Vinnie Mehta, director general, ACMA said. North America accounted for 32% of exports and saw a growth of 46%. Europe accounted for 31% and Asia's share was 25%. Key export items included drive transmission & steering, engine components, body/chassis, suspension and braking.

China remained the biggest source of auto components import valued at \$5.46 billion and accounting for 30% of total imports in FY22. FY21 imports from China were at \$4.03 billion. Germany was the second largest source of auto parts imports and accounted for 11% market share.



Tata Motors spent ₹23.7 crore on CSR activities in FY22. Tata Motors spent a total of ₹23.7 crore on CSR activities in FY22 as against ₹23.9 crore a year ago, according to the company's annual CSR report. Of this, a maximum of ₹8.49 crore was spent on education initiative and the least ₹1.23 crore on environment-related activities, the report said. The company's standalone revenue from operations in FY22 rose 56.63% to ₹47,263.68 crore from ₹30,175.03 crore in the previous fiscal.

It reported lower standalone loss at ₹1,390.86 crore during the year ended March 31, 2022 as against a standalone loss of ₹2,395.44 crore in FY21. -PTI

RailTel
(A Government of India Undertaking)
CIN No. L64202DL2000SC01078905
Letter No: RCIL/ER/2022-23/1411 Dated: 22.08.2022
RailTel invites bids from eligible bidders for the work of "Design, S/TC & AMC of DWDM system for OFC based communication Network for CCI & BCOE, Area for RailTel Corporation of India Ltd, Eastern Region".
Tender Notice Document is available on www.railtelindia.com, https://eprocure.gov.in and https://www.meps.gov.in. All future Actions/Modifications etc. will be updated on RailTel website, CPFR Portal and IREPS Portal. Bidders have to submit their bid on REPS Portal only.

Uttam Sugar Mills Limited
(Corporate Identity Number (CIN) : L99999UR1993PLC032518)
Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand - 247667
Tel.: 0120-4525000, website : www.uttamsugar.in
e-mail id : investorrelation@uttamsugar.in

INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

AGM to be held through VC/OAVM
Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company will be held on Friday, the 23rd September, 2022 at 12:00 noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM.

In accordance with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2021 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8th, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14th, 2021 and Circular No. 22/2022 dated May 05th, 2022 and Securities Exchange Board of India vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 ("Circulars") has permitted the holding of AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Shareholders at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 27th AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the FY 2021-22 will be sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are already registered with the Company/ Depository Participants. Shareholders may note that the Notice of AGM and Annual Report for the FY 2021-22 will also be available on the Company's website i.e. www.uttamsugar.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com. Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Shareholders attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of voting
The Company is providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ voting through e-voting system is being provided in the Notice of the AGM.

Manner of registering/updating e-mail address
In case Member(s) have not registered their email ID addresses with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your email ID for obtaining annual report and login details for e-voting.

Physical Holding
For shareholders holding shares in Physical Mode-Please send duly signed request with scanned copy of any one: share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN & AADHAR by e-mail at investorrelation@uttamsugar.in with subject line "LOGIN DETAIL REQUIRED FOR AGM OF FOLIO NUMBER - MENTION FOLIO NUMBER".

DEMAT Holding
For Shareholders holding shares in DEMAT Mode- Please update/register your email id with your depository participant and send updated copy of client master report at investorrelation@uttamsugar.in with subject line "LOGIN DETAIL REQUIRED FOR AGM OF DPID-CLID-MENTION DPID-CLID".

Dividend
The Members may please note that Board of Directors have recommended a Final Dividend at the rate of 20% i.e., @ Rs. 2.00 (Rupee Two Only) per Equity Shares) of Face Value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) for the Financial Year ended March 31, 2022, subject to the approval of the Shareholders at the 27th AGM. The Dividend, if declared, will be paid through Reserve Bank approved electronic mode to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants. For Shareholders who have not updated their Bank account details, Dividend Warrants/Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following details/documents at the Company's e-mail address: investorrelation@uttamsugar.in.
(a) Signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank details including Name and Branch of the Bank and Bank Account type, Bank Account Number and 11 Digit IFSC Code.
(b) Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or the first holder, in case shares are held jointly.
(c) Self-attested scanned copy of the PAN Card, and
(d) Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Passport) in support of the Member as registered with the Company.

For the Members holding Shares in Demat form, please update your Electronic Bank Mandate through your Depository Participant(s).
For further information/clarification on the above matter, Members can write to the Company/RTA of the Company at their respective address/e-mail.

By Order of the Board of Directors of the Company
For Uttam Sugar Mills Limited
Sd/-
(RAJESH GARG)
Joint Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No. FCS-5841)

PRESIDENT
SCHNEIDER ELECTRIC PRESIDENT SYSTEMS LIMITED
CIN: U32109KA1984PLC079103
Regd. Office: 5C/1, KIADB Industrial Area, Attibele, Bengaluru - 562107, Karnataka
Phone: 080 67888300
Website: www.schneiderelectricpresident.com; E-mail: sapna.bhatia@se.com

NOTICE OF THE THIRTY-EIGHTH (38TH) ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty Eighth (38th) Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Schneider Electric President Systems Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 13, 2022 at 3.30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated May 31, 2022 ("Notice").

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular Nos. 02/2022, 21/2021, 19/2021, 02/2021, 20/2020, 17/2020, and 14/2020 dated May 05, 2022, December 14, 2021, December 08, 2021, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), respectively, have granted permission for holding the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the Company's AGM is scheduled to be held through VC/OAVM only, as per the scheduled date and time.

Members are informed that:

- The Annual Report including Notice for the financial year 2021-22 ("Annual Report") has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participant(s) ("DPs") as on Friday, August 05, 2022, in accordance with the MCA Circulars. The electronic dispatch of Annual Report including Notice has been completed on Monday, August 22, 2022. The Annual Report is also available on the website of the Company at www.schneiderelectricpresident.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at <https://evoting.kfintech.com/>.
- In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, read with MCA Circulars and Secretarial Standard-2 on General Meetings, issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), the Company has engaged the services of KFinTech to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically through remote e-Voting prior to AGM and through e-Voting during the AGM. Members who have cast their votes by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The remote e-Voting facility before the date of the AGM will be available during the following voting period (both days inclusive):

Commencement of remote e-Voting From 9:00 a.m. (IST) on Saturday, September 10, 2022
End of remote e-Voting Up to 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 12, 2022.

The remote e-Voting module shall be disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period and hence, remote e-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

- A person whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Tuesday, September 06, 2022 ("Cut-off Date") shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting and e-Voting at the AGM. Any person who is not a Member on the Cut-off Date should treat the Notice for information purposes only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company on the said Cut-off Date. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after the date of electronic dispatch of the Annual Report and holds shares as of the Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at <https://evoting.kfintech.com/> or to RTA at gama@uniseq.in. However, if you are already registered with KFinTech for e-Voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from, Wednesday, September 07, 2022 to Tuesday, September 13, 2022 (both days inclusive).
- Mr. Rupesh Agarwal, failing him Mr. Shashikant Tiwari, Practicing Company Secretaries, Chandrasekaran Associates, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and e-Voting during the Meeting, in a fair and transparent manner.
- The relevant documents pertaining to the item of business to be transacted at the AGM are available for inspection electronically and shall remain open for inspection at the AGM.
- The voting results of the AGM along with the report of the Scrutinizer shall be declared as per the statutory timelines and will be placed on the website of the Company www.schneiderelectricpresident.com and on KFinTech's website at <https://evoting.kfintech.com/>.
- In case of any queries/grievances related to e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com/> or reach out to Mr. SV Raju at <https://evoting.kfintech.com/> or call KFinTech on toll free no. 1800 309 4001.
- Members are requested to further address the queries/grievances, if any to Ms. Sapna Bhatia-Company Secretary; E-mail id: sapna.bhatia@se.com.

For detailed instructions and procedure on participation at the AGM, manner of remote e-Voting and e-Voting during the AGM, please refer to the Notice.

By Order of the Board
For Schneider Electric President Systems Limited
Sd/-
Date : August 22, 2022
Place : Bengaluru
Life is On | Schneider Electric | Sapna Bhatia
Company Secretary

MUTUAL FUNDS
Indiabulls MUTUAL FUND
Investment Manager : Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (AMC)
Registered Office: Plot No. 422, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana - 122 016,
Tel: (0124) - 6681199, Fax: (0124) - 6681111, Website: www.indiabullsamc.com
CIN: U65991HR2008PLC0350063
Notice cum Addendum No. 10/ 2022
Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID), Key Information Memorandum (KIM) of all the below Schemes and Statement of Additional Information (SAI) of Indiabulls Mutual Fund (IBMF)
CESSATION OF KEY PERSONNEL OF THE AMC:
Notice is hereby given that Mr. Jayraj Panchal ceases to be the Chief Risk Officer (Key Personnel) of the AMC w.e.f. closing business hours of Wednesday, August 10, 2022.
Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID, KIM of all the Schemes & SAI of IBMF. All other terms and conditions as mentioned in the SID, KIM of all the above mentioned Schemes & SAI shall remain unchanged.
As per the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their email id and mobile number with us to support paper less communications.
For Indiabulls Asset Management Co. Ltd.
(Investment Manager to Indiabulls Mutual Fund)
Sd/-
Uday Diwale
Compliance Officer
Place : Mumbai
Date : August 22, 2022
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD
(A Government of India Enterprise)
CIN: L65910DL1986GO1026363
Room Nos.1316 - 1349, 3rd Floor, The Ashok, Diplomatic Enclave
50-B, Chanakyapuri, New Delhi - 110021
Phone: 011-24100385
Email: investors@irfc.co.in, Website: <https://irfc.co.in/>

PUBLIC NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that, the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Indian Railway Finance Corporation Limited ("Company") will be held on Friday, 23rd September 2022 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") & Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules notified there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the business as set out in the notice calling the AGM.

In compliance with the MCA & SEBI Circular(s), the Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 will be sent electronically to those members whose email address is registered with the Company / Depository Participant(s) and hard copy of annual report will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at <https://irfc.co.in/> and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the following instructions to register their e-mail address so as to receive all communications electronically including annual report, notices, circulars, NACH Intimation etc. sent by the Company from time to time:

Physical holding	Members, holding shares in physical are requested to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at irfc@beetalfinancial.com or to Company at investors@irfc.co.in .
Demat holding	Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

Further, pursuant to all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual General Meeting (including remote-voting instructions) electronically during the financial year 2022-23 and the Members may temporarily update their email address by writing to company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com.

For Indian Railway Finance Corporation Limited
Sd/-
Vijay Babul Shirode
Company Secretary

SHREE RENUKA SUGARS LIMITED
Regd. Office: 2nd & 3rd Floor, Kanakashree Arcade, CTS No. 10634,
JNMCC Road, Nehru Nagar, Bhatnagar, Bhatnagar - 590010
Tel No.: +91-831-2404000 | E-mail: groups@renukasugars.com | Website: www.renukasugars.com
CIN: L01542KA1995PLC019046

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Shree Renuka Sugars Limited ("Company") will be convened on Friday, 16th September 2022 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") & Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 8th December 2021 and 5th May 2022 respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 dated 12th May 2020, 15th January 2021 and 13th May 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") to transact the business as set forth in the AGM Notice, without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the 26th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), so far, are requested to register/update their e-mail addresses in the following manner:

- Members who hold shares in electronic/demat form are requested to register their e-mail ID with the Depository through their concerned Depository Participants. However, the members may temporarily register the same with the Company's RTA, M/s. KFin Technologies Limited, at <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> on their website www.kfintech.com in the Investor services tab by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, mobile number and email address.
- Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail ID with the Company's RTA, M/s. KFin Technologies Limited, at <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> on their website www.kfintech.com in the investor services tab by providing details such as Name, Folio No., Certificate number, PAN, mobile number and email address and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format.

On submission of the above details, a One-Time Password (OTP) will be received by the Member which needs to be entered in the link for verification.

Members can participate in the 26th AGM through VC / OAVM only. Necessary arrangements have been made by the Company with KFin Technologies Limited to facilitate e-Voting. The instructions for joining the 26th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the 26th AGM are provided in the Notice of the 26th AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 26th AGM along with Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.renukasugars.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com/>, after sending the same through email to the shareholders.

This Notice is being issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

For Shree Renuka Sugars Limited
Deepak Manerikar
Company Secretary

आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन उपलब्ध करा रहा राहत सामग्री

मंडलायुक्त ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न विभागों की टीमों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व, चिकित्सा, वेटनरी, पुलिस विभाग, सिंचाई, जिला पंचायत, लोनिवि, आदि सम्बन्धित विभागों से अधिकारी, कार्मिक आपदा राहत कार्यों लगे हैं तथा जनजीवन को सामान्य लाने में कार्य कर रही है तथा क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही शिविर भी लगाया गया है। जहां पर राहत सामग्री वितरित की जा रही है, कच्चा राशन, गैस सिलेण्डर-चूल्हा, महिला, पुरुष तथा बच्चों के कपड़े, फोल्डिंग पलंग, गद्दे आदि प्रभावितों को वितरित की जा रही है, जो लोग शिविर तक नहीं आ पा रहे उनको पैका हुआ भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मकान, कृषि भूमि, फसल नुकसान का आकलन कर अतैतुक सहायता उपलब्ध कराई



आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते सीडीओ।

जा रही है। सभी अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्य करते हुए जनजीवन को सामान्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में चिकित्सा टीम तैनात रखने तथा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शव बरामद होने की सम्भावनाओं के

दृष्टिगत पोस्टमार्टम टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मौके पर ही पोस्टमार्टम करते हुए पंचनामा आदि कार्यवाही समाप्तित की जा सके ताकि परिजनों को अनावश्यक भटकना पड़े। जनपद में विगत शुक्रवार को हुई अतिवृष्टि के चलते आयी आपदा से सरखेत व

अन्य क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका के दिशा निर्देशन के अनुपालन में सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी झरना कम्ठान, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा तथा शिव कुमार बरनवाल के नेतृत्व में क्षेत्र में

राहत एवं बचाव अभियान निरंतर संचालित किया गया जा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पेयजल, भोजन तथा अन्य राहत सामग्री वितरित की जा रही है। जिलाधिकारी सोनिका के दिशा निर्देशन के अनुपालन में संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सरखेत में राहत एवं बचाव अभियान को युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं खोजबीन कार्य को युद्ध स्तर पर संचालित करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सरखेत में लापता हुए लोगों के मालवा में दबे होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मलबा को हटाने हेतु दो पोकरलैंड मशीन कार्य कर रही है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को सुचारु करने में पर्याप्त मात्रा पर जेसीबी व मिश्रित आपूर्ति भी को सुचारु करने में टीम जुटी हुई है।

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने गढ़वाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, टिहरी, एवं पौड़ी गढ़वाल में शुक्रवार रात्रि हुई अतिवृष्टि में हुए नुकसान के सम्बन्ध में नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए। खोजबीन सर्च कार्य जारी है। आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 04 जनहानि हुई है। गढ़वाल मण्डल में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनमें से टिहरी जनपद में 02 तथा देहरादून जनपद में 01 एवं पौड़ी जनपद में 01 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जबकि 14 लोग लापता हैं। जनपद टिहरी से 07 तथा जनपद देहरादून से 07 लोग लापता हैं। लापता लोगों की खोजबीन का कार्य गतिमान है। पैदल मार्ग, पेयजल लाइन एवं एक अमृत सरोवर तथा राजकीय



संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जिनका आकलन राजस्व विभाग के टीम द्वारा किया जा रहा है। गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान व सम्पत्ति पुर्ननिर्माण अनुदान के संबंध में जांच कर प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। एक राजकीय हेलीकाप्टर

बचाव कार्य में तैनात है। एन.डी.आर.एफ. के 39 एन.डी.आर.एफ. 64 जवानों के अनुदान, अनुग्रह अनुदान व सम्पत्ति पुर्ननिर्माण अनुदान के संबंध में जांच कर प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। एक राजकीय हेलीकाप्टर

पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की अधीनस्थ चयन आयोग की घेराबंदी

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातकीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने आयोग को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी हर परीक्षा में संदिग्ध है। आयोग की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए। सोमवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व



पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व अन्य।

सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष और सचिव की थी। उन पर तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने के लिए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सरकारों द्वारा परीक्षाओं में गडबडी करने के कारण एजेंसी

आरोप लगाया कि आरोपित हाकम सिंह के साथ राज्य के पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा के मंत्री व नेताओं के फोटो रोज इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल निरंतर गिर रहा है। क्योंकि एस्टीएफ राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है, उसके अधिकार भी राज्य में सीमित हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे एस्टीएफ को जांच किस प्रकार चलेगी। राज्य एजेंसी होने के कारण उनकी जांच को प्रभावित किया जा सकता है। वहीं अब पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश से भी जुड़ चुका है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में एस्टीएफ का दूसरे राज्य में जांच करना संभव नहीं होगा। अतः हम राज्य सरकार से मांग कर मांग कर रहे हैं।

महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा अग्निवीर भर्ती में मानकों की हो जांच

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलाम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता कर इसकी जांच किये जाने का अनुरोध किया है। प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलाम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य

के 300 युवाओं को एक साथ दोड़ाया जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। जबकि शारीरिक में पूर्व में औसतन 300 में से 60 का चयन किया जाता था। श्री महाराज ने कहा कि कोटद्वार में 19 अगस्त 2022 से 31 अगस्त तक बीआरओ लैन्सडाउन अग्निवीरों की भर्ती कर रहा है। भर्ती होने वाले युवाओं का कहना है कि भर्ती के दौरान नियमों को अन्देखी की जा रही है। दौड़ का समय 1600 मीटर के लिये 5.40 सेकंड है लेकिन वह सिर्फ 5 मिनट में ही दौड़ को समाप्त कर दे रहे हैं। उत्तराखण्ड के जवानों के लिए 163 सेन्टीमीटर लम्बाई है जो कि स्वर्गीय पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने उत्तराखण्ड के लिए करवाई थी।

मंत्री गणेश जोशी ने आपदा पीड़ितों को राहत राशि के चेक वितरित किए देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को शिव जुनियर हाई स्कूल मालदेवता में सरखेत आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री श्री जोशी ने स्कूल के राहत शिविर में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना तथा उनकी समस्याओं को जानकारी ली।

उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड
उत्तम पक्वान्न संस्था (सीआईएन): L99991R1993PLC32518
पंजी कार्यालय: गांव सिक्करेडी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड-247687
फोन नं 0120-4625000, वेबसाइट: www.uttamsugar.in
ई-मेल आईडी: investorrelation@uttamsugar.in

27वीं वार्षिक आम बैठक के संक्षेप में श्रेयस्कारों के लिए सूचना

एजीएम वीसी/ओपीएम के माध्यम से आयोजित करना

एजीएम सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना, जो कि एजीएम के आयोजन के लिए भेजी जा रही है, में निम्नलिखित व्यवहार के निष्पत्तन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को दोप. 12.00 बजे मीडिया कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (वीसी/ओपीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

परिचय नं. 14/2020 दिनांक 8 अगस्त, 2020, परिचय नं. 17/2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020, परिचय नं. 20/2020 दिनांक 5 अगस्त, 2020, परिचय नं. 21/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिचय नं. 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, परिचय नं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 और परिचय नं. 2/2022 दिनांक 5 अगस्त, 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने अपने परिचय नं. सेबी/एचओ/सीएमडी/सीआईआर/सी/2020/79 दिनांक 12 अगस्त, 2020 और परिचय नं. सेबी/एचओ/सीएमडी/सीआईआर/सी/2022/62 दिनांक 13 अगस्त, 2022 ("परिचय") के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की शारिरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। इन परिचयों और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संतत प्राधान्यों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की 27वीं एजीएम वीसी/ओपीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त कथित परिचयों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी पहले से ही कम्पनी/डिवाइजिटी के पास पंजीकृत है। सदस्यगण कृपया नोट करें कि एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.uttamsugar.in स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड www.nseindia.com और नेशनल सिक्कीटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsd.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। वीसी/ओपीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यगणों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

वोटिंग की प्रक्रिया
कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निम्नलिखित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से अपना वोट देने की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिपोर्ट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

ई-मेल पता पंजीकरण/अपडेट कराने की प्रक्रिया
जिन सदस्यों ने कम्पनी/डिवाइजिटी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे ई-वोटिंग के लिए लिम्बड विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने की प्रक्रिया का पालन करें।

वीसी/ओपीएम
वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम के लिए - कृपया निम्नलिखित हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र के साथ कोई एक श्रेय प्रमाणपत्र (आपें एवं पीछे), पत्र एवं आचार काई नहीं करना, कम्पनी प्रति की स्कैन कॉपी "एजीएम के लिए अपेक्षित लॉगइन विवरण फॉलोयिंग नम्बर फॉलोयिंग नम्बर" पर ई-मेल investorrelation@uttamsugar.in पर भेजें।

लिम्बड प्रमाण
लिम्बड प्रमाण में श्रेय प्रमाण करने वाले सदस्यगण अपने वार्षिक रिपोर्ट प्रतिकापी के क्लॉकड नम्बर कॉपी की अपेक्षित प्रति के साथ "एजीएम के लिए अपेक्षित लॉगइन विवरण डीपीआईडी-सीएलआईडी" की कॉपीआईडी-सीएलआईडी वार्षिक कर" उसे ई-मेल investorrelation@uttamsugar.in पर भेजें।

लाभ
सदस्यगण कृपया नोट करें कि निर्देशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम मूल्य रु. 10/- (दस रुपये) के 20 प्रतिशत (अर्थात् रु. 2.00 (दो रुपये) प्रति इन्वेंचिटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश की शिफारशी की है जो 27वीं एजीएम में अनुमोदन के अधीन है। लाभांश, यदि घोषित हो जाता है तो उन श्रेयस्कारों को रिचार्ज बैंक अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मूलातन किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कम्पनी के रिचार्जर एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिवाइजिटी प्रतिकापी के पास अपडेट कराया है। जिन श्रेयस्कारों ने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है उन्हें लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। वार्षिक प्रमाण में श्रेय धारण करने वाले सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक वरीयार सॉफ्टवेयर या किसी अन्य माध्यम ("इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली सौदा अपने बैंक खाते में लाभांश वारंट/डिमांड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज कम्पनी के ई-मेल investorrelation@uttamsugar.in पर भेजें: (क) अपना नाम, फॉलोयिंग नम्बर, पत्र पता एवं बैंक विवरण सॉफ्ट बैंक का नाम एवं शाखा का नाम, बैंक खाता प्रकार, बैंक खाता संख्या एवं 11 अंकों का आईएफसीआई कोड के साथ अनुबंध पत्र भेजें। (ख) संयुक्त धारित शेयरों के मामले में सदस्य या पहले धारक के नाम पर बने की कैंसल की गई स्व-सत्यापित प्रति। (ग) पत्र काई की स्व-सत्यापित प्रति और (घ) कोई अन्य दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति कम्पनी के पंजीकृत सदस्य के रूप में स्कैन की गई प्रति।

लिम्बड प्रमाण में श्रेय धारण करने वाले सदस्यगण कृपया अपने डिवाइजिटी प्रतिकापी के पास अपना उपरोक्त विवरण पत्र किसी भी जानकारी/एस्टीमेट के लिए सदस्यगण कम्पनी/कंपनी के आरटीए को उनके संबंधित पते/ई-मेल पत्र लिख सकते हैं। कम्पनी के निर्देशक मंडल के आदेशानुसार

कृते उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
तिथि: 22 अगस्त, 2022
संयुक्त कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (सदस्यता सं. एएसीएस-6841)
स्थान: नोएडा

डीएम ने राहत शिविर का निरीक्षण किया

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । जिलाधिकारी सोनिका ने स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ सौर नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को रायपुर थाने मार्ग पर आवाजाही खोलने हेतु व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा मालदेवता राजकीय जुनियर हाईस्कूल में बनाये गए शिविर का निरीक्षण करते हुए वहां ठहराये गए प्रभावित लोगों परिवारों का हाल-चाल जाना। तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावितों

को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए अधिकारी समुचित मूलभूत व्यवस्थाएं बनाए रखें। उन्होंने प्रभावितों हेतु भोजन, रहने आदि व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लोगों की स्वास्थ्य जांच हेतु टीम को उपकरण एवं दवाईयों सहित मौजूद रखने के निर्देश दिए जिला पूर्ति अधिकारी को प्रभावित परिवारों हेतु पर्याप्त मात्रा में राशन तथा भोजन के पैकेट बनवाते हुए जो लोग शिविर तक नहीं आ पा रहे हैं उनको भोजन के पैकेट पहुंचाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जन शिकायतें, 45 शिकायतें हुई दर्ज

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 45 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें अधिकतर शिकायतों संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। तथा शेष शिकायतों को जिलाधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में स्थानीय 40 विधायक उमेश शर्मा काऊ भी क्षेत्र में की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले। आज जनसुनवाई कार्यक्रम में अतिथिगण, भूमि कब्जा, भूमि मुआवजा कम मिलने, पेंशन, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने, डाखिल खारिज, सीमांकन, सीवर का पानी घरों में घुसने, आन्दोलनकारी जिन्हें न्याय, भूमि पट्टा यथावत रखने, सरकारी भूमि पर कब्जा हटवाने, कोविड के दौरान शासकीय सेवाओं में लगे वाहनों का भुगतान दिलाने, पड़ोसियों



द्वारा मार-पीट किए जाने, दीवार लगाने, रास्ता रोकने आदि शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो शिकायत जनसुनवाई में एक बार आ गई है वह दोबारा न आए। उससे पहले ही उसका समाधान हो जाए यदि किसी शिकायत निस्तारण में समय लग रहा है तो शिकायतकर्ता को भी अवगत करा दिया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट में शिकायत पत्र लगे को भी निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का फॉलोअप करते हुए संबंधित विभाग को अनुस्मारक प्रेषित करें।

राज्य में पूरे सितंबर माह स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रमों का होगा आयोजन

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । विधान सभा स्थित कक्ष में उद्योग मंत्री चन्दन राम दास द्वारा हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन एवं स्टार्टअप उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वाधान में भारत पिचेथोन एवं स्टार्टअप सितम्बर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। मंत्री ने कहा कि हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा भारत पिचेथोन कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में 21 से भी ज्यादा शहरों में आयोजित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत छोटे शहरों के स्टार्टअप को अपने बिजनेस को इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भारत पिचेथोन का आयोजन गढ़वाल में 24 अगस्त को रूड़की एवं कुमाऊं



स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में बैठक लेते विभागीय मंत्री चंदन राम दास।

में 27 अगस्त को अल्मोड़ा शहर में किया जायेगा। भारत पिचेथोन के शीर्ष तीन स्टार्टअपस् को हेडस्टार्ट के बैंगलुरु में होने वाले

नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा स्टार्टअप सितंबर का भी शुभारम्भ हो गया है। स्टार्टअप सितंबर 2022 के अंतर्गत उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में पूरे सितंबर माह स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिससे उत्तराखण्ड के युवाओं को स्टार्टअप से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो सकेंगी। बैठक में निदेशक उद्योग सुधीर चन्द्र नौटियाल, विभागीय अधिकारी तथा हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन से उत्तराखण्ड चौपटर लीड वरुण तिवारी उपस्थित रहे।

लोनिवि व सिंचाई विभाग के अधिकारी नियमित करें पुलों की निगरानी: महाराज

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलाम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के साथ-साथ खाद्यान्न सामग्री भी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलाम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अतिवृष्टि के चलते मालदेवता, बांदल

घाटी स्थित सरखेत और यमकेश्वर सहित अन्य स्थानों पर हुई जानमाल की क्षति चिंता जाहिर करते हुए लोक निर्माण विभाग के एचओडी अयाज अहमद और सिंचाई विभाग के एचओडी को निर्देश दिए हैं कि जितने क्षेत्रों में लेखपाल को भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाई जाए ताकि लोगों को आंशिक सहायता के साथ-साथ खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जेसीबी इंडिया लि. के साथ समझौता ज्ञापन

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जेसीबी के ग्राहकों को उपस्कर वित्त प्रदान करने के लिए जेसीबी इंडिया लिमिटेड (जेसीबी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सी.एम. मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक, एमएसएमई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अनुज तोमर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और हेड-रिटेल फाइनेंस, जेसीबी इंडिया लिमिटेड ने मुंबई में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर

को देश भर में जेसीबी मशीनों के नेताओं को सर्वोत्तम पेशकश प्रदान करने में मदद मिलेगी। जेसीबी इंडिया भारत में निर्माण संबंधी उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है और ग्लोबल जेसीबी समूह यू.के. का हिस्सा है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सी.एम. मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक, एमएसएमई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अनुज तोमर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और हेड-रिटेल फाइनेंस, जेसीबी इंडिया लिमिटेड ने मुंबई में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर

सी.एम. मिनोचा, सीजीएम, एमएसएमई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे मौजूदा और नए ग्राहकों को लिए उपस्कर वित्तपोषण को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शबाजार नेतृत्व के लिए उत्कृष्ट उत्पाद के रूप में पहचाना गया है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ यह गठबंधन जेसीबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों के ग्राहकों को बैंक की उपस्कर वित्तपोषण योजना के तहत अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पेशकश में सहायता करेगा।

ई-नीलामी

वार्षिक मंडल वाणिज्य प्रबंधक /कोषिग, (ए.सी.ओ) उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के द्वारा वे एम्ब यूज, शौचालय (ओ एंड एम) के आधार पर, पार्किंग, ए.टी.एम. विज्ञापन के कार्य को बोली के माध्यम से ठेके पर देने हेतु बोलीयों www.irps.gov.in पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें www.irps.gov.in पर उपलब्ध है।

कैटेगरी	कैटलॉग संख्या	एसेट डिटेल्	ई-बोली की आरंभ तिथि	ई-बोली की अंतिम तिथि
विज्ञापन	22-MB-NFR-4	ट्रेनों के ऊपर विनायल पैकिंग डोकिंग के माध्यम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर विज्ञापन हेतु 360 किमी LED के माध्यम बरेली रेलवे स्टेशन पर विज्ञापन हेतु	05.09.2022 10.00 am	05.09.2022 11.30 am
पार्किंग	22-MB-Parking-2	पुरवाबाद द्वितीय प्रवेश द्वार एवं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग और बुलन्दशहर, यूपीया, योग नगरी ऋषिकेश, धामपुर, बरेली-मैन एवं द्वितीय प्रवेश द्वार, भिलखुआ, शाहजहाँपुर-द्वितीय प्रवेश द्वार, मुरादाबाद-द्वितीय प्रवेश द्वार, हापुर-द्वितीय प्रवेश द्वार, हरदोई बन्दोसी एवं गजरोला रेलवे स्टेशनों पर साइडिंग स्क्वैर स्टैंड हेतु।	06.09.2022 10.00 am	06.09.2022 13.00 pm
पे एंड यूज, शौचालय	22-MB-PnU-4	हापुर रुड़की, शाहजहाँपुर-सर्वकुलेटिग रेसिया, द्वितीय क्रेनी प्रतीक्षालय एवं धामपुर रेलवे स्टेशनों के पे एंड यूज, शौचालयों और एंड एम के माध्यम हेतु	05.09.2022 15.00 pm	05.09.2022 16.10 pm
ए.टी.एम	22-MB-ATM-1	शाहजहाँपुर, हरदोई, अमरौहा एवं देहरादून रेलवे स्टेशनों हेतु।	05.09.2022 13.00 pm	05.09.2022 14.00 pm

2132/22

ग्राहकों की सेवा में सुस्कारन के साथ

वीर अर्जुन

देहरादून में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।
मो. 7895189235

वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-
देहरादून:-
वसीम अहमद
मो.-9758325677

रुड़की:-
चन्दर न्यूज एजेंसी
प्रो.- श्री चन्द्रभान,
दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की
मो.- 9927069871

हरिद्वार:-
आत्रे न्यूज एजेंसी
प्रो.- श्री अनिल कुमार शर्मा, जटवाड़ा पुल, हरिद्वार
मो.- 9837177797

ऋषिकेश:-
आजाद न्यूज एजेंसी
प्रो.- श्री संजीव गुप्ता, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश
मो.- 9837229222